

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 मार्च 2024-चैत्र 8, शक 1946

विधि एवं विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2024

फा. क्र. 14-चार-2024-वि.निर्वा.-80.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 464-ईपीएस-2024-(2) दिनांक 28 मार्च 2024 का हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.



**भारत निर्वाचन आयोग**  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं.464-ईपीएस-2024(2)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2024-8 चैत्र, 1946 ( शक )

**अधिसूचना**

**यतः**, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्गत और भारत के राजपत्र में 28 मार्च, 2024 (गुरुवार) को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित राज्यों या संघ राज्य-क्षेत्रों में, इसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा की है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

2. **अतः, अब**, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

- (अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, उक्त निर्वाचन के संबंध में
- (क) असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू एवं कश्मीर के लिए नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख के रूप में 04 अप्रैल, 2024 (गुरुवार) को;
- (ख) जम्मू-कश्मीर के लिए नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के रूप में 06 अप्रैल, 2024 (शनिवार) को और असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के लिए नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के रूप में 05 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को;
- (ग) असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू एवं कश्मीर के लिए अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख के रूप में 08 अप्रैल, 2024 (सोमवार) को;
- (घ) नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस तारीख के रूप में, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में गतदान होगा; और
- (ङ) 6 जून, 2024 (गुरुवार) को उस तारीख के रूप में, जिससे पहले ऊपर उल्लिखित सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा;

**नियत करता है; और**



- (आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में इसके स्तंभ (3) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सम्मुख विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

**अनुसूची**

**संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तिथि और मतदान का समय**

**चरण-II**

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खंड	मतदान की तिथि	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
असम	4-दारंग-उदालगुड़ी	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	6-डिफू (अ.ज.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	7-करीमगंज	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	8-सिलचर (अ.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	9-नगांव	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
बिहार	10-किशनगंज	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	11- कटिहार	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	12- पूर्णियाँ	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	26- भागलपुर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	27- बाँका		
	157-सुलतानगंज वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	159-अमरपुर वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	160-धौरैया (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	161-बाँका वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	162-कटोरिया (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	163-बेतहर वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे



छत्तीसगढ़	<b>6-राजनांदगांव</b>		
	71- पंडरिया वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	72-कवर्धा वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	73- खैरागढ़ वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	74- डोंगरगढ़ (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	75- राजनांदगांव वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	76- डोंगरगांव वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	77- खुर्जी वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे
	<b>9-महासमुन्द</b>		
	39-सराईपाली (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	40-बसना वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	41- खल्लारी वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	42-महासमुन्द वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	54-राजिम वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	9 मतदान केन्द्रों के लिए 75-कमरभौदी, 77-आमामोड़ा, 78- ओध, 90-बड़े गोबरा, 114-गवारगांव, 118-गरीबा, 120-नागेश, 121- साहबिनकछार और 122-कोडोमाली पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे शेष मतदान केन्द्रों के लिए पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	57-कुरूद वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	58-धमतरी वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	<b>11-कॉंकर (अ.ज.जा.)</b>		
	56- सिहावा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	59- संजारी बालोद वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	60- डोंडी लोहारा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	61- गुन्डरदेही वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
79- अंतागढ़ (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे	
80- भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे	
81- कॉंकर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे	
82- केशकाल (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे	
कर्नाटक	<b>15-उदीपी चिकमगलुर</b>		
	16-हसन	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	17-दक्षिण कन्नड	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे



	18-चित्रदुर्ग (अ.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	19-टुमकुर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	20-मान्ड्या	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	21-मैसूर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	22-चामराजनगर (अ.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	23-बंगलौर ग्रामीण	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	24-बंगलौर उत्तर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	25-बंगलौर केन्द्रीय	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	26-बंगलौर दक्षिण	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	27-चिक्काबल्लापुर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	28- कोलार (अ.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
केरल	1-कासरागोड	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2-कन्नूर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	3-वडकरा	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	4-वयनाड	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	5-कोझीकोड	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	6-मलप्पुरम	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	7-पोत्रानी	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	8-पालक्काड	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	9-अलथूर (अ.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	10-त्रिस्सूर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	11-चालाक्की	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	12-एरनाकुलम	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	13-इडुक्की	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	14-कोट्टयम	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	15-अलप्पुझा	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	16-मावेलीक्करा (अ.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	17-पथनमथीट्टा	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	18-कोल्लम	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	19-अट्टिङ्गल	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	20-तिरुवनन्तपुरम	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
मध्य प्रदेश	6-टीकमगढ़ (अ.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	7-दमोह	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	8-खजुराहो	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	9-सतना	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	10-रीवा	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	17-होशंगावाद	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	29-वैतूल (अ.ज.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
महाराष्ट्र	5-बुलढाणा	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	6-अकोला	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	7-अमरावती (अ.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	8-वर्धा	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	14-यवतमाल-वाशिम	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	15-हिंगोली	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	16-नांदेड़	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे



	17-परभणी	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
राजस्थान	12-टोंक-सवाई माधोपुर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	13-अजमेर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	15-पाली	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	16-जोधपुर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	17-बाड़मेर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	18-जालौर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	19-उदयपुर (अ.ज.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	20-बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	21-चित्तौड़गढ़	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	22-राजसमन्द	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	23-भीलवाड़ा	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	24-कोटा	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	25-झालावाड़-बारां	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
त्रिपुरा	2-त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
उत्तर प्रदेश	9-अमरोहा	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	10-मेरठ	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	11-बागपत	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	12-गाजियाबाद	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	13-गौतम बुद्ध नगर	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	14-बुलन्दशहर (अ.जा.)	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	15-अलीगढ़	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	17-मथुरा	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
पश्चिम बंगाल	4-दार्जिलिंग	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	5-रायगंज	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	6-बालूरघाट	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
जम्मू एवं कश्मीर	5-जम्मू	26.04.2024 (शुक्रवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे

आदेश से,  
हस्ता./-  
(संजीव कुमार प्रसाद)  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.



**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

No. 464-EPS-2024(2)

New Delhi, the 28<sup>th</sup> March, 2024 – 8 Chaitra, 1946 ( Saka )

**NOTIFICATION**

**WHEREAS**, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 28<sup>th</sup> March, 2024 (Thursday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (2) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in column (1), of the Schedule to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

- (A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule,
- (a) **the 04<sup>th</sup> April, 2024 (Thursday)**, as the last date for making nominations for **Assam, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal and Jammu and Kashmir**;
- (b) **the 06<sup>th</sup> April, 2024 (Saturday)**, as the date for scrutiny of nominations for **Jammu and Kashmir** and **the 05<sup>th</sup> April, 2024 (Friday)**, as the date for scrutiny of nominations for **Assam, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal**;
- (c) **the 08<sup>th</sup> April, 2024 (Monday)**, as the last date for withdrawal of candidatures for **Assam, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal and Jammu and Kashmir**;
- (d) the date specified in column (3) of the **SCHEDULE** below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule; and



(e) the 06<sup>th</sup> June, 2024 (Thursday), as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and

(B) Fixes the hours specified in column (4) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (3) thereof, for the above election.

### SCHEDULE

#### Parliamentary Constituencies, Dates and Hours of Poll

##### PHASE-II

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency Segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>ASSAM</b>	<b>4-Darrang-Udalguri</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>6-Diphu (ST)</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>7-Karimganj</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>8-Silchar (SC)</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>9-Nagaon</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
<b>BIHAR</b>	<b>10-Kishanganj</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>11-Katihar</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>12-Purnia</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>26-Bhagalpur</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>27-Banka</b>		
	157-Sultanganj AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	159-Amarpur AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	160-Dhoraiya (SC) AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	161-Banka AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	162-Katoria (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
	163-Belhar AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 04:00 PM
<b>CHHATTISGARH</b>	<b>6-Rajnandgaon</b>		
	71- Pandariya AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	72-Kawardha AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	73- Khairagarh AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	74- Dongargarh (SC) AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	75- Rajnandgaon AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	76- Dongargaon AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM



	77- Khujji AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	78-Mohla-Manpur(ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
	<b>9-Mahasamund</b>		
	39-Saraipali (SC) AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	40-Basna AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	41- Khallari AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	42-Mahasamund AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	54-Rajim AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	55-Bindranawagarh (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	For 9 Polling Stations 75-Kamarbhoudi, 77-Aamamora, 78-Odh, 90-Bade Gobra, 114-Gawargaon, 118-Gariba, 120-Nagesh, 121-Sahabinkchhar & 122-Kodomali <b>07:00 AM to 03:00 PM</b> <b>PM</b> <u>For remaining Polling Stations</u> <b>07:00 AM to 06:00 PM</b> <b>PM</b>
	57-Kurud AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	58-Dhamtari AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>11-Kanker (ST)</b>		
	56- Sihawa (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	59- Sanjari Balod AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	60- Dondi Lohara (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	61- Gunderdehi AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	79- Antagarh (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
	80- Bhanupratappur (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
	81- Kanker (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
	82- Keshkal (ST) AC	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 03:00 PM
<b>KARNATAKA</b>	15-Udupi Chikmagalur	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	16-Hassan	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	17-Dakshina Kannada	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	18-Chitradurga (SC)	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	19-Tumkur	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	20-Mandya	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	21-Mysore	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	22-Chamarajanagar (SC)	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM



	<b>23-Bangalore Rural</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>24-Bangalore North</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>25-Bangalore Central</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>26-Bangalore South</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>27-Chikballapur</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>28-Kolar (SC)</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>KERALA</b>	<b>1-Kasaragod</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>2-Kannur</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>3-Vadakara</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>4-Wayanad</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>5-Kozhikode</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>6-Malappuram</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>7-Ponnani</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>8-Palakkad</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>9-Alathur (SC)</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>10-Thrissur</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>11-Chalakydy</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>12-Ernakulam</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>13-Idukki</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>14-Kottayam</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>15-Alappuzha</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>16-Mavelikkara (SC)</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>17-Pathanamthitta</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>18-Kollam</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>19-Attingal</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>20-Thiruvananthapuram</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>MADHYA PRADESH</b>	<b>6-Tikamgarh (SC)</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>7-Damoh</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>8-Khajuraho</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>9-Satna</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>10-Rewa</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>17-Hoshangabad</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>29-Betul (ST)</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>MAHARASHTRA</b>	<b>5-Buldhana</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>6-Akola</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>7-Amravati (SC)</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>8-Wardha</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>14-Yavatmal-Washim</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>15-Hingoli</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>16-Nanded</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>17-Parbhani</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>RAJASTHAN</b>	<b>12-Tonk-Sawai Madhopur</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>13-Ajmer</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM



	<b>15- Pali</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>16- Jodhpur</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>17- Barmer</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>18- Jalore</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>19- Udaipur (ST)</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>20- Banswara (ST)</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>21- Chittorgarh</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>22- Rajsamand</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>23- Bhilwara</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>24- Kota</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>25- Jhalawar- Baran</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>TRIPURA</b>	<b>2-Tripura East (ST)</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 05:00 PM
<b>UTTAR PRADESH</b>	<b>9-Amroha</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>10-Meerut</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>11-Baghpat</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>12-Ghaziabad</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>13-Gautam Buddha Nagar</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>14-Bulandshahr (SC)</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>15-Aligarh</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>17-Mathura</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>WEST BENGAL</b>	<b>4-Darjeeling</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>5-Raiganj</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>6-Balurghat</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>JAMMU AND KASHMIR</b>	<b>5-Jammu</b>	26.04.2024 (Friday)	07:00 AM to 06:00 PM

By order,  
Sd./-  
( SANJEEV KUMAR PRASAD )  
Secretary,  
Election Commission of India.